

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 72]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 1966/वैशाख 2, 1888

No. 72]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 1966/VAISAKHA 2, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 22nd April 1966

G.S.R. 619.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts printing pastes made from titanium-dioxide or zinc-oxide and falling under Item No. 14 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that—

- (1) the appropriate duty on such titanium-dioxide or zinc-oxide has been paid; and
- (2) such pastes are used within the factory of production by the manufacturer in the printing of cotton textiles.

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st March, 1966.

[No. 62/66.]

S. K. BHATTACHARJEE, Jt. Secy.

(317)

